51-100 Satisfactory

301-400 Very poor

201-300 Poor

401-500 Severe

Auto driver held over 'cow meat' complaint

EXPRESS NEWS SERVICE GURGAON, MAY 3

AN AUTORICKSHAW driver was arrested by Gurgaon Police Wednesday for allegedly selling cow meat in Saraswati Kunj. Police said samples of the meat were sent for testing to Hisar. Police said the accused, Jaidul, was produced in a Gurgaon court on Thursday which remanded him to 14-day judicial custody.

"We received information that cow meat was being sold in the slums in Saraswati Kunj. We reached the spot and apprehended him," said Balraj, the Investigating Officer (IO) in the case. He added, "Samples of the meat have been sent for testing."

Residents claimed that Jaidul had purchased the meat for him-

self as well as neighbours. "The people who live in this area are poor labourers or domestic helps. They cannot go to the market everyday, or afford the auto ride to the meat shop. So they had asked him to get meat for all of them," said Wajid Khan, who heads the Nehru Yuva Sangathan Welfare Society Charitable Trust, and was approached by residents for help.

Khan added, "He had purchased the meat from a shop, and was told it was of a buffalo. If they suspect he has procured cow meat, they should trace it all the way back..."

In a purported video of the incident that has surfaced, Jaidul can be seen on his knees while a group of men confront him, demanding to know if the meat belongs to a cow, even as he says he was "told" it is buffalo meat.

While Gurgaon Police claimed to have "heard" of such a video, they said they have not seen it and it has not been made part of the investigation so far.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर

G.E. Road, Raipur - 492010 (C.G.)

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR (Institute of National Importance)

Man falls to death after police show up to arrest him

EXPRESS NEWS SERVICE NEW DELHI, MAY 3

A 68-YEAR-OLD builder fell to death under mysterious circumstances just as a police team turned up at his Vasant Vihar home to arrest him in an alleged cheating case. While his family alleged foul play, police said they have registered a case under IPC Section 309 (attempted suicide).

According to police, Virendra Dhingra was an accused in a Rs 10 crore cheating case in south Delhi's CR Park. "He was accused of selling property that had already been sold to a person, who registered a case against him in January, 2017," a police officer said.

DCP (southwest) Milind Dumbere said Dhingra left behind a two-page suicide note. "He was an accused in a case of cheating in CR Park. He wrote that he was depressed due to money issues. We have registered a case and started the probe," he said.

Police said the incident took place on April 30. Around 9.30



Police came to arrest Virendra Dhingra on April 30

pm, a team consisting of a subinspector, head constable and constable from the CR Park police station went to Dhingra's house with an arrest warrant.

Police said when the team reached his house, his family said he wasn't home. Police said the officers then went to check if Dhingra was hiding in the servants' quarter on the third floor but found it locked from inside.

"In the meantime, they heard a loud noise and found Dhingra's body on the ground. Family members made a PCR call. Dhingra was taken to Fortis Hospital where he died during treatment," a police officer said. Police said a city court had issued a non-bailable warrant against Dhingra.

SC to DDA: Why did you

EXPRESS NEWS SERVICE

A SUPREME Court bench, monitoring the ongoing sealing drive in the capital, Thursday asked the Delhi Development Authority (DDA) to explain why it had decided to amend the Master Plan and give more Floor Area Ratio (FAR) to commercial complexes

A bench comprising Justice Madan B Lokur and Justice Deepak Gupta observed that the situation in the capital on account of pollution, water scarcity

and traffic congestion seems to

ernment will have to take steps in this regard.

On the move to increase FAR, ground floor was meant for commercial purposes and first floor for residential areas.

But the court said if this was allowed, huge construction

WAS DONE WITHOUT MY KNOWLEDGE, CONSENT: SAFDARJUNG COUNCILLOR

101-200 Moderate

Tomb to temple in 2 months: In south Delhi, a monument changes colours

SOMYA LAKHANI

NEW DELHI, MAY 3


FROM BEING the tomb of an unidentified person dating back to the Tughlaq dynasty to becoming Shiv Bhola temple two months ago, Gumti — a small, domed tomb in Safdarjung Enclave's Humayunpur village is facing an identity crisis. The state-notified monument built on a mound, amid buildings and a park, was painted white and saffron in March, and idols placed inside it.

It is learnt that the work has been done in complete violation of the Citizen Charter of the Department of Archaeology, which states that one "cannot paint, draw or whitewash any wall in and around the monument" and "cannot hamper or spoil the originality of the monument".

While the Delhi government's Department of Archaeology could not be reached for a comment, a source called it a "major faux pas". Deputy Chief Minister Manish Sisodia said, "I have no information about this, I will ask the department concerned to conduct an inquiry and send me the report."

The Delhi Chapter of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) was supposed to take up restoration work of the 15th-century monument, in collaboration with the

STYLISH NEW





Gumti, a small domed tomb in Safdarjung Enclave's Humayunpur village.

Archaeology department, last year. Ajay Kumar, projects director, INTACH-Delhi, "This was a locked monument and we were unable to start work there due to resistance from residents... we went with police but it didn't work out. Now it's become a temple and we've lost the monument."

Meanwhile, two saffroncoloured benches placed in the complex bear the name of BIP councillor from Safdarjung Enclave, Radhika Abrol Phogat.

Tasson

However, Phogat told *The Indian Express*, "The structure was turned into a temple without my knowledge, consent or support. It was done with the connivance of the previous BJP councillor. I objected too, but it's a sensitive issue. With whatever that is going on in the country, one can't touch a temple. The benches with my name were initially in the park."

Swapna Liddle, convener, IN-TACH Delhi chapter, said, "Turning a monument into a religious structure is a land grab issue... the easiest thing to do is to turn it into a *mandir* or a *mazar*. We are not gatekeepers of the monument, we restore them. The protection has to be done by the state and then it should be handed over to us."

According to a 2010 notification by the state's Urban Development department, Gumti was notified as one of the 767 heritage sites, and received a grade-I listing. In 2014, the Archaeology department noti-

fied it again as a heritage site. Little is known about who was buried here or who built Gumti. But the architecture pointed tip of the dome and absence of mihrab (a semi-circular niche in the wall) — points at either late-Tughlaq or early-Lodi

period.

Kanika (19), a resident, said, "It was always a monument... in a bad state. I grew up thinking it was a tomb but then a few months ago, it became a temple."

decide to amend Master Plan

NEW DELHI, MAY 3

in 112 markets.

have reached an "irreversible" situation. It also said that the Delhi gov-

the DDA said this was for the 112 shopping areas where government had permitted dual use of buildings in 1962, and where the

could come up in Delhi and the DDA cannot "wish it away".

Phone: (0771) 2252700 Fax: (0771) 2253104 Email: registrar@nitrr.ac.in Website: www.nitrr.ac.in

No./NITRR/Registrar/2018/ 237 Ph. D. Admission for Academic Year 2018

Applications are invited for Ph.D. Admissions in (Full time /Sponsored/Self Financed/Part time categories) for the Academic Session 2018 in Department of Applied Geology, Architecture, Bio Medical, Bio-Technology, Chemical Engineering, Chemistry, Civil Engineering, Computer Application (MCA), Computer Science & Engineering, Electrical Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering, Humanities & Social Sciences, Information Technology, Mathematics, Mechanical Engineering, Metallurgical Engineering, Mining Engineering & Physics with specialization and area as mentioned in the Institute website: www.nitrr.ac.in. Numbers of seats for Ph.D. admission are not fixed. Hence preference will be given to OBC/SC/ST/PH candidates over OC (General) candidates if all other things remain the same. How to Apply:

The application forms and other relevant information may be downloaded from the institute website www.nitrr.ac.in The filled applications along with a crossed DD towards application fee drawn in favour of "Director, NIT (Name of

the Department)" Application Fee:

Place: Mumbai

Date: 4th May 2018

Rs. 200/- for OC and OBC category applicant. For SC/ST/PH candidates, fee will be Rs. 100/- only.

Note: The results of scrutiny and selection will be displayed in the Institute website www.nitrr.ac.in and no intimation will be sent to the candidates by post. The candidates are requested to visit Institute website regularly.

Registrar NIT Raipur



Registered Office: Cement House, 121 Maharshi Karve Road, Mumbai - 400020

CIN: L26940MH1936PLC002515

Website: www.acclimited.com

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)

Notice is hereby given that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act 2013 read alongwith The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016, notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) which came into effect on September 7, 2016, the Company is required to transfer to the "IEPF Suspense Account", all the underlying shares in respect of which dividend has not been

Shareholders holding shares in physical form who have not claimed their dividends for a consecutive period of 7 years, are liable to have their shares transferred to the 'IEPF Suspense Account'. As per the required procedure, the Company will be issuing fresh share certificate(s) in lieu of the original share certificates held by them, for transferring the same to the IEPF Suspense Account in accordance with the Rules. Accordingly, the original share certificate(s) which are registered in the names of the shareholders will stand automatically cancelled, upon the issue of such fresh share certificates and the original share certificates will become non tradeable on the Stock Exchanges or otherwise.

In case of shares which are held in dematerialized mode where the demat holders have failed to claim the Dividends for a consecutive period of 7 years, the transfer of shares held by them will be made into the demat account of the IEPF authority, with the support of the Depositories.

The Company has now communicated with each individual shareholder whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the year 2018 for taking appropriate action.

the Company's website at www.acclimited.com. Shareholders are requested to refer to the weblink: http://www.acclimited.com/investor-relations/corporate-governance to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF authority. The shareholders may note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority, pursuant to the above Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 7th June 2018, the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to IEPF authority by way of Corporate Action by the due date as per procedure stipulated in the Rules, without any

> By Order of the Board For ACC Limited

Company Secretary & Head Compliance FCS-2440

Date: 02/05/2018

Raipur" payable at Raipur should reach to "The Registrar, NIT Raipur, CG 492010" on or before 21/05/2018 in an A4 size envelope with super scribing "Ph.D. Admission for Academic Year 2018 in

ACC

NOTICE TO SHAREHOLDERS

paid or claimed during a consecutive period of seven years.

Details of shareholders who have not claimed their dividends for a period of 7 consecutive years have been placed on

further reference to the shareholders concerned.

Ramaswami Kalidas

Hero MotoCorp Ltd. - Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057, India. Email: secretarialho@heromotocorp.com | Telephone no: 011-46044100 | Fax no: 011-26143321 | CIN: L35911DL1984PLC017354 Visit: www.HeroMotoCorp.com

5. Previous periods' / year's figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to make them comparable.

NET PROFIT JUMPS 9.5% TO RS. 3,697.36 CRORE, YOY HIGHEST EVER MONTHLY SALES ACHIEVED BY A TWO-WHEELER RIDING ON RECORD SALES OF 7.59 MILLION UNITS COMPANY OF 730,473 UNIT SALES Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2018. (₹in Crores)

			and the same and t	The state of the s	The same of the sa	1 , 111 010100
Particulars	Standalone				Consolidated	
	Quarter ended March 31, 2018	Quarter ended March 31, 2017	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2017	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2017
1. Total income	8730.54	7613.91	33397.64	31394.02	33624.11	31505.61
Net Profit for the period before Tax (before Exceptional items ")	1387.21	939.01	5244.16	4658.46	5292.10	4885.40
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items *)	1387.21	939.01	5244.16	4658.46	5292.10	4885.40
4 Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items ")	967.40	717.75	3697.36	3377.12	3722.17	3546.30
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	965.37	714.19	3692.65	3363.04	3714.91	3527.59
 Equity Share Capital (face value ₹2/- per share) 	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)			11728.94	10071.35	11931.52	10275.57
8. Earnings per share on net profit after Tax - face value ₹2/- each (In Rupees) a) Basic b) Diluted	48.44 48.44	35.94 35.94	185.14 185.13	169.12 169.12	186.30 186.29	179.49 179.49
# No exceptional item during the period						

New Delhi

May 2, 2018

1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter/year is available on the Company's website www.heromotocorp.com and also on stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. The Board at its meeting held on May 02, 2018 considered and recommended a final dividend @ 2000% i.e. Rs. 40 per equity share of Rs. 2.00 each for the financial year 2017-18. The dates of the Book Closure for the entitlement of such dividend and Annual General Meeting shall be decided and informed in due course of time. This dividend together with the Interim dividend @ 2750% i.e. Rs. 55 per equity share of Rs. 2.00 each already paid to the members would aggregate to @ 4750%.

3. Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Group's business activity fall within a single operating segment, namely automotive segment. Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.

4. The above results for the quarter and year ended March 31, 2018 have been reviewed and recommended by the Audit Committee meeting held on May 01, 2018 and approved by the Board of Directors in their meeting held on May 02, 2018.

> PAWAN MUNJAL Chairman, Managing Director & CEO

For and on behalf of the board

DIN: 00004223

L C K SAATCHI & SAATCHI

अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे अजय माकन, कांग्रेस अध्यक्ष से मिले पीसी चाको

नई टीम को राहुल गांधी की हरी झंडी

अजय पांडेय नई दिल्ली, 3 मई।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के कांग्रेसी ढांचे में फेरबदल के प्रस्ताव पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। इसके साथ ही दिल्ली कांग्रेस के नए जिला व ब्लॉक अध्यक्षों के नामों के ऐलान का रास्ता साफ हो गया है। नई टीम के इसी महीने काम संभाल लेने के आसार हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह दावा भी किया कि सबे में पार्टी संगठन के ढांचे में बदलाव की इस बडी कवायद के बावजूद कांग्रेसी मुखिया अजय माकन की कुर्सी नहीं हिलने वाली, वे अपने पद पर कायम रहेंगे। नई टीम उनकी ही अगुआई में लोकसभा के आगामी चुनाव में भाजपा व आम आदमी पार्टी को टक्कर देने का काम करेगी। चाको ने बताया कि दिल्ली के सभी 14



• जिला व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की सूची अगले कुछ दिनों में जारी होने के संकेत

जिलों व 280 ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है लेकिन उनके नामों की घोषणा नहीं की गई है। इसी सिलसिले में उन्होंने दो दिन पहले पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे प्रदेश संगठन को नई शक्ल देने को लेकर

बातचीत की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली की नई टीम को अपनी मंजूरी दे दी है। लिहाजा, अगले कुछ दिनों में नये पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बदलाव संबंधी कयासों को लेकर पूछने पर चाको ने कहा कि अजय माकन अपने पद पर बने रहेंगे और उनकी ही अगुआई में पार्टी लोकसभा के आगामी चुनाव में भाजपा व आम आदमी पार्टी को टक्कर देगी। माकन की जगह पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को प्रदेश की कमान सौंपे जाने संबंधी अटकलों को लेकर पूछने पर दिल्ली के प्रभारी चाको ने कहा कि जो लोग ऐसी बात करते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि दीक्षित अब भी बीमार हैं। उनका इलाज चल रहा है। इसी वजह से वह पार्टी की गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले पा रही हैं। दुसरी बात यह है कि प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन का कहीं कोई प्रस्ताव

नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के लगातार बढ़ते ग्राफ से परेशान लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माकन की अगुआई में सभी नेताओं के एक मंच पर आ जाने से कांग्रेस के पक्ष में तेजी से माहौल बन रहा है। ऐसे में विपक्षी लोग जानबूझकर ऐसी अफवाहें उड़ाकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी।

सनद रहे कि बीते साल अक्तूबर महीने में ही अध्यक्ष व ब्लॉक कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो गया। लेकिन अलग-अलग कारणों से इनके नामों की घोषणा टलती रही। प्रदेश कांग्रेस के नेता बडी शिद्दत से नई टीम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अब पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद अगले कुछ दिनों में नई टीम की घोषणा कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव एसएन सहाय का तबादला, केंद्र भेजे गए

अंशु प्रकाश को भी केंद्र भेजे जाने को लेकर अटकलें तेज

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।

दिल्ली सरकार के आला नौकरशाहों में शुमार वित्त विभाग के प्रमुख सचिव एसएन सहाय का तबादला केंद्र सरकार में कर दिया गया है। वे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की भूमिका निभाएंगे। उनके तबादले के साथ ही मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को भी केंद्र में भेजे जाने संबंधी अटकलें तेज हो गई हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी सिमिति के 2 मई को जारी आदेश में सहाय के तबादले का आदेश दिया गया है। इस आदेश में कुल 14 आइएएस अधिकारियों के तबादले की सूची लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि सहाय अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की भूमिका निभाएंगे। सहाय के साथ काम करने वाले सरकार के अफसरों का यह कहना है कि उनके तबादले से दिल्ली सरकार

• केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की भूमिका निभाएंगे सहाय

के कामकाज पर असर पड़ने के आसार हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि नौकरशाही से सरकार का छत्तीस का रिश्ता है और सहाय ही एकमात्र ऐसे अधिकारी

रहे हैं जो सरकार और नौकरशाही के बीच

कड़ी के तौर पर काम करते रहे हैं। इस बीच सहाय के तबादले के बाद मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के तबादले की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में कथित तौर पर मुख्य सचिव के साथ मारपीट की घटना के बाद से ही यह कहा जा रहा है कि जल्दी ही उनका तबादला केंद्र में किया जाएगा। अब प्रमख सचिव सहाय के तबादले के बाद नए सिरे से मुख्य सचिव को लेकर अटकलों का बाजार गरमा गया है।

डीसीडब्लू अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर की अपील

'फास्ट ट्रैक कोर्ट' के लिए राज्यों में गठित की जाए टास्क फोर्स

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की है कि 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' बनाने के काम में तेजी लाने के लिए सभी राज्यों में टास्क फोर्स गठित किया जाए। बच्चियों के साथ बलात्कार मामले में अध्यादेश लाने के लिए डीसीडब्लू अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया और साथ ही बलात्कार मुद्दे को कथित रूप से संप्रदाय से जोड़े जाने पर चिंता भी जाहिर की।

डीसीडब्लू अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है,

'अगले 3 महीने में देशभर में नए फास्ट टैक सम्मेलन में संविधान बचाओ अभियान की कोर्ट्स बनाने और पुलिस की कार्यशैली सुदृढ़ शुरुआत करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल करने के लिए सभी को मिशन मोड पर काम गांधी जल्दी ही दिल्ली में अति दलित चुनौती करना होगा। मेरा सुझाव है कि हर राज्य में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली की तैयारी को स्पेशल टास्क फोर्स गठित हो जिसमें केंद्र सरकार, लेकर आगामी 5 मई को कांग्रेस मुख्यालय में राज्य सरकार और न्यायपालिका के सबसे वरिष्ठ पार्टी के दलित नेताओं की एक बैठक बुलाई प्रतिनिधि हों जो अगले 15 दिन में इस काम को गई है। इस बैठक के बाद ही रैली की तारीख क्रियान्वित करने की अपने राज्य की रूपरेखा तय की घोषणा की जाएगी। दिल्ली के पूर्व विधायक करें'। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली एक जयकिशन ने गुरुवार को जारी एक बयान में यह विशेष राज्य है, इसलिए दिल्ली के स्पेशल टास्क जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रैली में फोर्स में केंद्रीय गृहमंत्री, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य दिल्ली व आसपास के अति दलित समाज के न्यायाधीश, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग हो और में भाजपा की सरकारें हैं वहां दलितों व पिछड़ी अगले 15 दिन में इनकी बैठक बुलाई जाए।

अब अति दलित रैली की तैयारी, बैठक 5 को

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।

राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में दलित जातियों पर हमले किए जा रहे हैं।

सरकार डीयू के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है: सिन्हा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीय्) के दयाल सिंह (सांध्य) कॉलेज का नाम बदलकर वंदेमारतम दयाल सिंह कॉलेज किए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच कॉलेज के अध्यक्ष अमिताभ सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि डीयू एक स्वायत्त संस्था है और सरकार उसके प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार कहा था कि मंत्रालय दयाल सिंह कॉलेज (सांध्य) का नाम बदलने की अनमति नहीं देगा और बिना मंजरी के ऐसा करने पर इसकी प्रबंधन समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा

कि डीयू एक स्वायत्त संस्था है और इसलिए सरकार उसके प्रशासनिक मामलों में कुछ भी नहीं कह सकती है। इस तरह के बयान देने से पहले एचआरडी मंत्री को सबसे पहले सही स्थिति जानने के लिए मुझसे बात करनी चाहिए थी। पिछले साल यह विवाद तब पैदा हुआ था, जब विभिन्न समृहों ने कॉलेज का नाम बदलकर 'वंदेमातरम महाविद्यालय' किए जाने के कदम का जबर्दस्त विरोध किया था।

सिन्हा ने कहा कि जब पहली बार मैं जावड़ेकर से मिला था, तो मैंने कहा था कि इस मुद्दे को कुलपति और शासी निकाय की ओर से हल किया जाएगा और उन्होंने तब इसमें रुचि जाहिर की थी। हमने एक बीच का रास्ता निकाला और इसे वंदेमातरम दयाल सिंह कॉलेज नाम दिया। मुझे नहीं पता कि वह कुछ दबाव में हैं या इसमें कुछ रणनीति है।

उपराज्यपाल बैजल ने की थानों की बीट व्यवस्था की समीक्षा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को राजधानी की कानून व्यवस्था से संबंधित बैठक में बीट व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बीट को सशक्त बनाने के उपाय और बीट अफसरों की क्षेत्र में उपस्थिति, विभिन्न रैंक के बीट अधिकारियों को सशक्त एवं उन्हें बहउद्देशीय बनाने आदि की भी समीक्षा की गई।

राजनिवास से जारी एक बयान के अनुसार समीक्षा बैठक में दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों की बीट व्यवस्था की जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपराज्यपाल को बताया गया कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए राजधानी के 163 थानों में 8000 पुलिसकर्मी को बीट अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। इनमें 700 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

नवोदय विद्यालय के 4360 विद्यार्थी देंगे जेईई एडवांस्ड

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।

जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन में बेहतर प्रदर्शन किया है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर उनके इस प्रदर्शन पर जेएनवी छात्रों को बधाई दी।

जावड़ेकर ने लिखा कि इस साल नवोदय विद्यालय के 4360 विद्यार्थी जेईई मेन में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य घोषित हुए हैं जबिक पिछले साल यह संख्या 3563 थी। पिछले साल के मुकाबले 22 फीसद अधिक छात्र योग्य घोषित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सबूत है कि सरकार का ध्यान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर है। जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर ही देश की 23 आइआइटी और आइआइसी में दाखिला दिया जाता है। इस साल नवोदय विद्यालय के 11653 विद्यार्थियों ने जेईई मेन दिया था। इस हिसाब से जेएनवी के छात्रों की सफलता की दर 37 फीसद रही जो अन्य किसी भी समूह के स्कूलों से बहुत ज्यादा है। पिछले साल 9757 छात्रों ने यह परीक्षा दी थी।

पानी के लिए सड़क पर उतरेगी भाजपा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 मई।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि हर इंसान को जीने के लिए उसकी मौलिक जरूरतें होती हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था. जनस्वास्थ्य सेवाएं. वाइ-फाइ जैसे मुद्दों पर फेल केजरीवाल सरकार की अकर्मण्यता के चलते दिल्लीवासियों के सामने अब पानी का संकट खड़ा हो गया है। तिवारी ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में दिल्ली सरकार की नाकामियों को उजागर किया।प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव भी उपस्थित थे।

LIBERTY फोन: 28711800/28712998 ''एवेन्जर्सः ''इन्फिनिटी वार'' (यू/ए) (हिंदी) 2 डी (2रा सप्ताह) * रॉवर्ट डाउनी जू., स्कार्लेट जोहान्शन शो का समयः 12.30 अप., 3.15 अप., 6.30 अप. एवं 9.45 अप.

इन्टरनेट बुकिंगः www.libertycinema.in फोन बुकिंग नं. 39895050

Orchies

The most special way to say you care आर्चीज लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालयः प्लाट नं0ः 191 F, सेक्टर-4, IMT मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा - 122050 कॉर्पोरेट पहचान संख्या :L36999HR1990PLC041175, वेबसाइट : www.archiesonline.com ईमेल: archies@archiesonline.com, दूरभाष: +91 124 4966666, फैक्स : +91 124 4966650

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यक्ताओं) नियमावृती, 2015 की नियमावृती 29 और 47 (1) (a) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आर्चीज़ लिमिटेड ("कम्पनी") के निर्देशक मंडल की बैठक बुधवार, 23 मई, 2018 को अपराहन 12:30 बजे कॉर्पोरेट कार्यालय सी-113, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज -1, नई दिल्ली. 110028 में आयोजन हेतु निर्धारित की गई है, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त कम्पनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही / वित्तीय वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जाएगा। इस सूचना के संबंध में जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.archiesonline.com एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 03.05.2018 कृते आर्चीज लिमिटेड

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST TO SUBMIT RESOLUTION PLAN FOR ELHPL PRIVATE LIMITED


EXTENSION OF DATE

This notice is in reference to newspaper advertisement ('The Indian Express', English Edition and 'Jansatta', Hindi Edition) dated 07th April 2018 on the above mentioned subject. By this notice an extension of date is being announced towards submission of Expression of Interest (EOI). The last date for submission is now 21st May, 2018. The criteria for minimum net worth of Rs. 20 crores of resolution applicant is withdrawn and all the other terms and conditions are remained unchanged.

The Interested parties may submit Expression of interest (EOI) through email at rbajajip@gmail.com or through speed post/ registered post at CS Rajiv Bajaj, Resolution Professional of ELHPL Private Limited 4/180, Ground Floor, Backside Subhash Nagar, New Delhi-110027.

Rajiv Bajaj Resolution Professional of **ELHPL Private Limited**

IP Reg No. IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834 4/180, Ground Floor, Backside Subhash Nagar, New Delhi-110027 Contact No.- 8800794355



PVR DIRECTOR'S CUT ATMOS Delhi 1:55,11:20PM I PVR CHANAKYA ATMOS Delhi 1:00, 8:00PM | PVR ICON VASANT KUNJ ATMOS Delhi 10:30AM, 3:40, 8:35, 10:50PM | PVR SELECT CITY ATMOS Delhi 12:15, 4:45, 9:10PM | PVR ANUPAM SAKET Delhi 2:00, 6:40, 11:20PM | PVR PACIFIC ATMOS Delhi 12:10, 6:45, 11:25PM PVR NARAINA Delhi 11:20AM, 3:55, 8:40PM I PVR CITY CENTER SHALIMAR BAGH Delhi 9:25AM, 4:30, 9:05PM I PVR SANGAM Delhi 2:40, 7:20PM I PVR VIKASPUR Delhi 11:20AM, 3:55PM I PVR PRASHANTVIHAR ATMOS Delhi 11:20AM, 8:40PM I CINEPOLIS TOI MOTI NAGAR Delhi 11:10AM, 8:25PM I CINEPOLIS NSQ PITAMPURA Delhi 11:10AM, 6:05PM I CINEPOLIS UNITY ONE ROHINI Delhi 10:20AM, 6:05, 8:20PM I CINEPOLIS DLF PLACE SAKET Delhi 12:00, 9:30PM CINEPOLIS CRM SHAHADARA Delhi 10:15AM,12:30PM,7:20PM I CINEPOLIS V3S AXMI NAGAR Delhi 11:10AM, 6:05PM I CINEPOLIS JANAK Delhi 10:15AM, 12:30, 8:15PM I G3S ROHINI Delhi 3:00, 8:20PM I INOX JANAK PURI Delhi 11.30AM 8.35PM I INOX NEHRU PALACE Delhi 9.15AM, 1.40, 8.50PM I INOX PATEL NAGAR Delhi 11.30AM, 6.15PM I M2K PITAMPURA Delhi 10:00AM, 04:30, 06:30, 08:30PM M2K ROHINI Delhi 12:00, 6:30PM I MOVIE TIME PITAMPURA Delhi 2:00, 6:05. 10:05PM | MOVIE TIME RAJA GARDEN Delhi 2:00, 3:30, 6:05, 10:05PM WAVE RAJOURI GARDEN Delhi 12.30, 5.45, 10.55PM I DELITE DIAMOND Delhi 12:00, 2:10PM | CARNIVAL BIG PACIFIC KAUSHAMBI Ghaziabad 12:15, 2:15 6:45PM | WAVES KAUSHAMBI Ghaziabad 12.45, 5.45, 10.45PM NOX JAM SHIPRA INDRAPURAM Ghaziabad 11.30AM, 8.40PM SRS ADITYA INDRAPURAM Ghaziabad 11:15AM, 3:50, 8.00, 10.00PM SRS JAIPURIYA INDRAPURAM Ghaziabad 1:05, 5:10, 9:20PM US- INDRAPURAM Ghaziabad I PVR EDM KAUSHAMBI Ghaziabad 12:20, 7:20PM PVR MAHAGUN VAISHALI Ghaziabad 9:00, 4:00, 9:00, 11:15PM I PVR OPULENT Ghaziabad 1:40, 6;20PM I PVR VVIP MALL RAJNAGAR Ghaziabad 4:00, 8:40PM WAVE RAJNAGAR Ghaziabad 12.30, 3.00, 7.15PM I CARNIVAL WORLD SQUARE MALL Ghaziabad 10:15AM,12:15, 6:15PM | SILVERCITY Ghaziabad CARNIVAL MOVIE WORLD Ghaziabad 11:00AM, 2:00, 5:00, 8:00PM I CARNIVAL (BIG ANSAL PLAZA)-VAISHALI Ghaziabad 10:00AM, 3:45, 9:30PM I STAR X VAISHAL Ghaziabad | GALAXIE Ghaziabad 12.15, 2.15, 4.30, 6.45, 8.45PM SRS CITY MALL Gorakhpur 12.00, 4:10PM I PVR CITY CENTER Gurgaon 1:00, 8:00 PVR MEGA MALL Gurgaon 12:20, 7:20PM | PVR AMBIENCE MALL Gurgaon 11:50AM, 1:00, 4:30, 9:10PM | PVR AMBIENCE Gurgaon 10:20PM | PVR MGF Gurgaon 9:00AM, 1:55, 6:45, 11:20PM | SRS OMAX GURGAON Gurgaon 12:05, 4:15PM | SRS WEDDING MALL GURGAON 2:10, 6:20PM | INOX DREAMZ MALL GURGAON Gurgaon 11.30AM, 8.40PM | CARNIVAL PALAMVIHAR Gurgaon 11:15 AM, 3:20 PM, 7:25 PM CARNIVAL GRAND CINEMAS SOHNA ROAD Gurgaon 9:45AM, 1:20, 5:25, 11:00PM PVR LOGIX ATMOS Noida 9:00AM, 1:25PM, 6:05PM, 7:50PM, 10:10PM, 10:45PM CARNIVAL BIG TGIP Noida 1:20, 5:25, 9:30PM I PVR MALL OF INDIA NOIDA ATMOS Noida 10:0AM,3:10PM,8:45PM,11:00PM I CINEPOLIS SPICE WORLD Noida 9:50AM, 12:05, 2:20, 7:10, 9:00, 9:30PM I WAVE CINEMAS Noida 10:30AM, 3:15, 5:30 10.15PM | MOVIETIME Noida 12:00, 4:00, 6:00PM | CINEPOLIS GRAND VENICE Greater Noida 9:45AM, 2:15, 7:55, 10:10PM I INOX MSX GREATOR NOIDA Greater Noida 12.30, 5.15, 10.45PM I INOX OMAXE CP MALL GREATOR NOIDA Greater Noida 10.05AM, 2.50, 5.00, 10.30PM I MOVIETIME Greater Noida 12:00, 4.00, 6:00PM I Sunflower

STYLISH NEW Tassion NET PROFIT JUMPS 9.5% TO RS. 3,697.36 CRORE, YOY HIGHEST EVER MONTHLY SALES ACHIEVED BY A TWO-WHEELER

COMPANY OF 730,473 UNIT SALES

5. Previous periods' / year's figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to make them comparable.

RIDING ON RECORD SALES OF 7.59 MILLION UNITS

Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2018. (Fin Crores)

Particulars	Standalone				Consolidated	
	Quarter ended March 31, 2018	Quarter ended March 31, 2017	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2017	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2017
1. Total income	8730.54	7613.91	33397.64	31394.02	33624.11	31505.61
Net Profit for the period before Tax (before Exceptional items ")	1387.21	939.01	5244.16	4658.46	5292.10	4885.40
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items *)	1387.21	939.01	5244.16	4658.46	5292.10	4885.40
4 Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items *)	967.40	717.75	3697.36	3377.12	3722.17	3546.30
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	965.37	714.19	3692.65	3363.04	3714.91	3527.59
 Equity Share Capital (face value ₹2/- per share) 	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94	39.94
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)			11728.94	10071.35	11931.52	10275.57
8. Earnings per share on net profit after Tax - face value ₹2/- each (In Rupees) a) Basic b) Diluted	48.44 48.44	35.94 35.94	185.14 185.13	169.12 169.12	186.30 186.29	179.49 179.49
# No exceptional item during the period						

Notes:-

1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter/year is available on the Company's website www.heromotocorp.com and also on stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. The Board at its meeting held on May 02, 2018 considered and recommended a final dividend @ 2000% i.e. Rs. 40 per equity share of Rs. 2.00 each for the financial year 2017-18. The dates of the Book Closure for the entitlement of such dividend and Annual General Meeting shall be decided and informed in due course of time. This dividend together with the Interim dividend @ 2750% i.e. Rs. 55 per equity share of Rs. 2.00 each

already paid to the members would aggregate to @ 4750%. 3. Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Group's business activity fall within a single operating segment, namely automotive segment. Accordingly, the disclosure requirements

of Ind AS 108 are not applicable.

4. The above results for the guarter and year ended March 31, 2018 have been reviewed and recommended by the Audit Committee meeting held on May 01, 2018 and approved by the Board of Directors in their meeting

For and on behalf of the board

Chairman, Managing Director & CEO

New Delhi

May 2, 2018

Hero MotoCorp Ltd. - Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057, India. Email: secretarialho@heromotocorp.com | Telephone no: 011-46044100 | Fax no: 011-26143321 | CIN: L35911DL1984PLC017354 Visit: www.HeroMotoCorp.com

L.CK SAATCHI & SAATCHI

DIN: 00004223

PAWAN MUNJAL